



सीएसआईआर -केंद्रीयविद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान)

कारैकुडी - 630 006, तमिलनाडु, भारत

CSIR - CENTRAL ELECTROCHEMICAL RESEARCH INSTITUTE
(Council of Scientific & Industrial Research)

KARAIKUDI - 630006, TAMIL NADU, INDIA

Tel: 04565 - 227777, 227778(off), 22662 (Res), Fax: 04565 - 227779
Email: director@cecri.res.in

डॉ. विजयमोहनन के. पिल्लै

निदेशक

Dr. Vijayamohan K. Pillai
Director

31 दिसंबर, 2015

प्रिय मित्रो एवं सहकर्मियो,

नव वर्ष 2016 अपने साथ नवीन चुनौतियां लेकर आ रहा है, ऐसे अवसर पर आप सब को नव वर्ष की शुभकामनायें देने का यह अवसर मेरे लिए हर्ष का विषय है. वर्ष 2015 के समापन तथा 2016 के आगमन के इस अवसर पर मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा: " हमारा पिछले वर्ष का कार्य निष्पादन कैसा रहा ? सामान्यतः ऐसे कौन से बिंदु हैं, जो कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के बेहतर जीवन तथा विकास के सूचक हैं" क्या ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने ग्रेड, पद, प्रभाग अथवा कार्य से परे अपने सामर्थ्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ? निस्संदेह वर्ष २०१५ हमारे लिए काफी अच्छा था, वर्ष 2015 में कई क्षेत्रों में हमारा कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा, जैसे कि मुख्य भवन की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, ईआरपी कार्यान्वयन, सीवेज संसाधन संयंत्र का उद्घाटन, अब्दुल कलाम सभागृह का नवीनीकरण, प्रतिभावान युवाओं की भर्ती. मैं, सीईसीआरआई के इस विकास में आपके सहयोग एवं समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा. इसी प्रकार हालही में संपन्न अनुसंधान परिषद् की खुली-बैठक एक और उपलब्धि है. आपमें से कई लोगों ने ईमानदारी से अपने मत रखे, जो इस संस्थान से आपके भावात्मक सम्बंध के परिचायक हैं.

एक सुस्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत की गई, इस हेतु अनुभवी एवं नवीन-युवा कर्मचारी - सब में पाए गए एक समान उल्लेखनीय नेतृत्व को सलाम. हमें, हमारे प्रतिभाशाली तथा रचनात्मकता से पूर्ण बीटेक और पीएचडी छात्रों पर भी गर्व है. यहाँ प्रकाशन, पेटेंट, अवार्ड/सम्मान, प्रौद्योगिकी/वैशिष्ट्य अंतरण तथा नवीन प्रबंधन - प्रयास से संस्थान को प्राप्त मान्यता का उल्लेख करना भी आवश्यक है.

नव वर्ष आगमन - हमारे लिए संस्थान, सीएसआईआर तथा पूरे भारत वर्ष के लिए नवीन आकांक्षाओं तथा विज्ञान पर चिंतन-मनन करने का एक अवसर है. और जब हम २०१६ का स्वागत कर रहे हैं तो हमें, नवाचार पर अधिक ध्यान देते हुए सामरिक महत्व अनुसार स्वयं को दोबारा प्रतिष्ठित करना होगा. आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय उद्देश्य तथा मिशन के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध हों. हमारी मूल अनुसन्धान एवं विकास गतिविधियाँ स्पष्टतः देहरादून घोषणा के अनुरूप होनी चाहिए तथा हमारे वैशिष्ट्य का उपयोग पूर्ण रूप से चुनौतीपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं की दिशा में होना चाहिए. विशेष रूप से हमारी प्रौद्योगिकियों का प्रयोजन राष्ट्रीय मिशन जैसे कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया तथा नमामि गंगे होना चाहिए.



सीएसआईआर -केंद्रीयविद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान)

कारैकुडी - 630 006, तमिलनाडु, भारत

CSIR - CENTRAL ELECTROCHEMICAL RESEARCH INSTITUTE
(Council of Scientific & Industrial Research)

KARAIKUDI - 630006, TAMIL NADU, INDIA

Tel: 04565 - 227777, 227778(off), 22662 (Res), Fax: 04565 - 227779

Email: director@cecri.res.in

डॉ. विजयमोहनन के. पिल्लै

निदेशक

Dr. Vijayamohan K. Pillai

Director

सामरिक क्षेत्र में हमारे द्वारा किये जा रहे प्रयास अच्छे हैं, हालांकि कुछेक मामलों में हमारे आत्मसंतोष ने परिणाम को थोड़ा धुन्धला किया है. आवश्यकता है कि हम अपनी मूल विशिष्टता को लघु -, मध्यम- तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास में लगायें. मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस पर अधिक ध्यान दें, ताकि क्षेत्र में सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में अधिक भरसा निर्मित हो. संस्थान में पिछले वर्ष लगाये गए बायोमीट्रिक अर्टेंडेंस सिस्टम को माननीय प्रधानमंत्री जी के BAS संबंधी आदेश के अनुपालनार्थ आधार - सम्बद्ध सिस्टम के रूप में अपग्रेड किया जायेगा. इससे कार्य - घंटों तथा अनुवर्ती कार्य निष्पादन/उत्पाद संबंधी और अधिक पारदर्शिता आयेगी. कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में : वैज्ञानिकों के 21 पदों के लिए स्क्रीनिंग का प्रथम चरण पूरा हो चुका है तथा द्वितीय चरण का कार्य जारी है.

हम, विद्युतरसायन के वैश्विक अगुआ पूरे विश्व को - स्पष्ट एवं प्रबल सन्देश दें - कि विश्व की बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध है. एक परा-विषयी क्षेत्र के रूप में 'विद्युतरसायन विज्ञान एवं अभियांत्रिकी' - स्वच्छ ऊर्जा, किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं, हरित पर्यावरण तथा सतता से जुड़ी छोटी अथवा बड़ी सभी समस्याओं से निपटने में सर्वथा सक्षम है. मैं, सीईसीआरआई परिवार से आग्रह करता हूँ कि आइये इस नव वर्ष का स्वागत इस प्रतिज्ञा से करें कि हम एक टीम के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने वैशिष्ट्य का उपयोग समाज के कल्याण हेतु करेंगे.

वर्ष 2016 आप सभी के लिए अत्युत्तम तथा उपयोगी हो. बहुत - बहुत शुभकामनायें .

विजयमोहनन के. पिल्लै